



कोविड-19 के दौरान 27 जुलाई से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव और सीनियर आई.डी. कार्डों के लिए नई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 जुलाई, 2020) – सिटी को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर, सोमवार, 27 जुलाई से, अगले नोटिस तक, बस सेवा में नीचे दिए गए बदलाव किए जाएंगे।

सेवा में बदलाव

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा ट्रांज़िट सिस्टम, लोगों को सिटी में अच्छी तरह से गतिशील रख सकता है, 27 जुलाई से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के रूट चालू हो जाएंगे।

- 501 जूम क्वीन (501 Züm Queen)
- 502 जूम मेन (502 Züm Main)
- 511/511A जूम स्टील्स (511/511A Züm Steeles)
- 1/1A क्वीन (1/1A Queen)
- 2 मेन (2 Main)
- 3 मैकलॉग्लिन (3 McLaughlin)
- 4/4A चिंगकूज़ी (4/4A Chinguacousy)
- 5/5A बोवेअर्ड (5/5A Bovaird)
- 6 जेम्स पोटर (6 James Potter)
- 7/7A कैनेडी (7/7A Kennedy)
- 8 सेंटर (8 Centre)
- 9 वोडन (9 Vodden)
- 10 साउथ इंडस्ट्रियल इंडमट्रीअल (10 South Industrial)
- 11/11A स्टील्स (11/11A Steeles)
- 14/14A टोरब्रैम (14/14A Torbram)
- 15 ब्रैमली (15 Bramalea)
- 18 डिक्सी (18 Dixie)
- 20A ईस्ट इंडस्ट्रियल (20A East Industrial)
- 23 सैंडलवुड (23 Sandalwood)
- 26 माउंट प्लेज़ेंट (26 Mount Pleasant)



- 29 विलियम्स पार्कवे (29 Williams Parkway)
- 30 एयरपोर्ट रोड (30 Airport Road)
- 31 मैकवीन (31 McVean)
- 35 क्लार्कवे (35 Clarkway)
- 50 गोर रोड (50 Gore Road)
- 51 हैरफोर्ड (51 Hereford)
- 52 मैकमर्ची (52 McMurphy)
- 53 रे लॉसन (53 Ray Lawson)
- 56 किंगनोल (56 Kingknoll)
- 57 चारोलेस (57 Charolais)
- 60 मिसिसागा (60 Mississauga)
- 115 पियर्सन एयरपोर्ट एक्सप्रेस (115 Pearson Airport Express)

इस समय जिन रूट्स पर सेवा चालू है, उनकी और उनके शेड्यूल की सूची के लिए www.bramptontransit.com पर जाएं।

सवारियों को याद दिलाया जाता है कि ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। ट्रिनिटी कॉमन (Trinity Common) टर्मिनल बंद रहेगा। टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा (Customer Service) घंटों के बारे में जानने के लिए, www.bramptontransit.com पर जाएं।

सीनियर आई.डी. (ID) कार्डों के लिए नई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

बुजुर्ग अपने ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सीनियर आई.डी. कार्डों के लिए, अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को www.bramptontransit.com पर ऑनलाइन फार्म पूरा करने की जरूरत है और अपनी उम्र का, ब्रैम्पटन में रिहायश का सबूत और अपने कार्डों पर लगाई जाने वाली फोटो अटैच (नत्थी) करने की जरूरत है। उसके बाद, आवेदकों को डाक से कार्ड भेज दिया जाएगा।

सारे एक्टिव (सक्रिय) सीनियर आई.डी. कार्डों पर, अनिश्चित समय तक कोई एक्सपायरी डेट्स (अवधि समाप्त होने की तारीखें) नहीं होंगी। बुजुर्ग, अगले नोटिस तक अपने एक्सपायर्ड कार्डों का प्रयोग जारी रख सकते हैं।

यदि बुजुर्गों का ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सीनियर आई.डी. कार्ड गुम हो गया हो और उन्हें बदली (रिप्लेसमेंट) कार्ड की जरूरत हो, तो वे कार्ड बदलने के बारे में और निर्देशों के लिए, सीनियर कार्ड (Senior Card) प्रोग्राम को 905-874-2750 एक्सटेंशन 16253 पर संपर्क कर सकते हैं।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय



अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी, सवारियों से अनुरोध करती है कि जितना अधिक से अधिक संभव हो पाए, वे टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर, मास्क पहनकर भी, लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें। यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, नजदीकी कोविड (COVID-19) एसेसमेंट साइट में टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सवारियों को याद दिलाया जाता है कि बसों पर और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल (कपड़े के बने साधारण मास्क) मास्क आवश्यक हैं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca